



रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR
भारत सरकार : रेल मंत्रालय
Govt. of India (Ministry of Railways)
Phone: 07752-417742, Fax: 07752-417742



क्रमांक: रेअबो/बिलासपुर/01-2018/ब्लॉक तिथि

दिनांक: 24.07.2019

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या - 01/2018 के अंतर्गत

सहायक लोको चालक एवं तकनीशियन के पदों हेतु दिनांक 25.06.2019 से दिनांक 05.08.2019 तक आयोजित दस्तावेज एवं उम्मीदवारी के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों के लिए द्वितीय/अंतिम अवसर के संबंध में आवश्यक सूचना

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या - 01/2018 के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा दिनांक 25.06.2019 से दिनांक 30.08.2019 तक सहायक लोको चालक एवं तकनीशियन के पदों हेतु उम्मीदवारी एवं दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है।

ऐसे समस्त उम्मीदवार जो दिनांक 25.06.2019 से दिनांक 05.08.2019 तक आयोजित दस्तावेज एवं उम्मीदवारी सत्यापन में निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे, उन्हें अनुपस्थित रहने के उचित कारण (अन्य सरकारी विभाग की परीक्षा, विश्वविद्यालय की परीक्षा या स्वयं की बीमारी) के प्रमाण सहित दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए द्वितीय/अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

ऐसे समस्त उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर कार्यालय में दस्तावेज एवं उम्मीदवारी के सत्यापन हेतु निम्नानुसार अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है:-

क्रमांक	दस्तावेज एवं उम्मीदवारी सत्यापन की पूर्व निर्धारित तिथि	द्वितीय/अंतिम अवसर की तिथि	उपस्थिति का समय
1	25.06.2019 से 19.07.2019	06.08.2019	दोपहर 02:30 बजे
2	22.07.2019 से 24.07.2019	07.08.2019	दोपहर 02:30 बजे
3	25.07.2019 से 05.08.2019	08.08.2019	दोपहर 02:30 बजे

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि पूर्व निर्धारित तिथि को दस्तावेज एवं उम्मीदवारी सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहने के उचित कारण एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

दस्तावेज एवं उम्मीदवारी सत्यापन हेतु आने वाले सभी उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा पूर्व में जारी ई-कॉल लेटर/प्रवेश पत्र के साथ में पहचान हेतु कम से कम एक वैध एवं मूल फोटो पहचान पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज एवं उम्मीदवारी के सत्यापन के लिए अपने निवास स्थल से प्रस्थान के पूर्व रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा दिनांक 14.06.2019 एवं दिनांक 18.06.2019 को जारी दिशा निर्देशों का भलीभाँति अवलोकन कर लें।

उपर्युक्त सूचना का प्रकाशन रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर के अधिकारिक वेबसाइट www.rbbilaspur.gov.in में किया गया है।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड/बिलासपुर